



# जनता से रिश्ता

www.jantaserishta.com

## 3 करोड़ की नकली आयुर्वेदिक दवा जब्त, ड्रग डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई



**रायपुर।** ड्रग डिपार्टमेंट की टीम ने शनिवार को नकली आयुर्वेदिक दवा के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने गोंदवारा के श्री महावीर ट्रांसपोर्ट से लाखों रुपये नकली आयुर्वेदिक दवा पकड़ी है। बताया जा रहा है कि ये गोलियां गीतांजलि नगर की बजरंग फर्मेसी के नाम से महावीर ट्रांसपोर्ट पहुंचीं। जो कि इंदौर की चंदा आयुष नामक फर्म से भेजी गई है। बता दें कि गुरुवार को बजरंग फर्मेसी से करीब 3 करोड़ रुपये की नकली आयुर्वेदिक गोलियां पकड़ी गई थीं। दरअसल, आयुर्वेदिक के नाम पर एलोपैथिक दवाइयां बेचने वालों पर खादय एवं औषधि विभाग की टीम ने बीते गुरुवात को बड़ी कार्रवाई की थी। टीम ने चार जगहों पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में दवाइयां जब्त की थीं। जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपये बताई गई थी।

जब्त दवाइयों की जांच कालीबाड़ी स्थित शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में कराई गई। जहां दवाइयों में डिक्लोफेनिक और असक्लोफेनिक की मात्रा पाई गई है। टीम ने सूर्यकांत बघेल फार्म बजरंग आयुर्वेदिक एजेंसी भारत माता चौक, गीतांजलि नगर, शंकर नगर रायपुर, मेसर्स शारदा मेडिकल स्टोर्स सिमगा, गिरधारी देवांगन दुकान और घर दोनों स्थानों पर कार्रवाई की थी। इसके अलावा याशिका ट्रेडिंग वेयरहाउस सूर्या प्लास्टिक के

पास ओमिया मार्केट बिरगांव, वाईटीएम शंकर नगर याशिका ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के यहां भी बड़ी मात्रा में दवाइयां जब्त की गईं. ये चारों जगह की दवाएं वेबसाइट के माध्यम से बेची जाती थीं. हर दवाओं को मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से ज्यादा लाभ देने के लालच से बेची जाती थी. ये कंपनियां 90 दिनों में बालों का उगना, कैंसर, जोड़ों का दर्द एक महीने में दूर करने का दावा करते हुए बिजनेस कर रही थी.

Source: <https://jantaserishta.com/local/chhattisgarh/fake-ayurvedic-medicine-worth-rs-3-crore-seized-drug-departments-major-action-2001738>